

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य-जनपद अमरोहा

दिनांक 23.02.2023

***थाना डिडौली पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड वांछित गौकश/15,000/- रुपये इनामी अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध असलहा (तमंचा/खोखा/ जिन्दा कारतूस) व संदिग्ध मो0सा0 बरामद* ।**

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांगहे के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जनपद अमरोहा में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्री राजीव कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री विजय कुमार राणा के निकट पर्यवेक्षण में थाना डिडौली पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड वांछित गौकश/15,000/- रुपये इनामी अभियुक्त गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से अवैध असलहा (तमंचा/खोखा/जिन्दा कारतूस) व एक संदिग्ध मो0सा0 बरामद हुई ।

***संक्षिप्त विवरण*:-** अवगत कराना है कि दिनांक 22.02.2023 की रात्रि थाना डिडौली पुलिस द्वारा चैकिंग/गस्त के दौरान बुढनपुर से जिवाई जाने वाले रास्ते पर नहर की पटरी से वांछित गौकश/15,000/- रुपये इनामी अभियुक्त अमान पुत्र अमानत निवासी ग्राम ढकिया चमन थाना डिडौली जनपद अमरोहा को बाद पुलिस मुठभेड गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त अमान द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया जिसमें पुलिस टीम बाल बाल बची । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध असलाह अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 संदिग्ध मो0सा0 होन्डा साइन रजि0न0 UP21 AL 6848 बरामद हुई । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना डिडौली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । बरामद संदिग्ध मो0सा0 होन्डा साइन रजि0न0 UP21 AL 6848 के कागज न दिखाने पर धारा 207 MV Act के तहत सीज किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त अमान शातिर किस्म का गौकश अपराधी है जिनके विरुद्ध गौकशी, एनडीपीएस, गैंगस्टर आदि से सम्बन्धित 06 अभियोग पंजीकृत है । अभियुक्त दिनांक 20.02.23 की रात्रि थाना अमरोहा देहात के ग्राम धनौरा उर्फ मुरादनगर के जंगल में हुई गौकशी की घटना से सम्बन्धित थाना अमरोहा देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 73/23 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 11 पशु क्रूरता अधि0 बनाम में वांछित चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक अमरोहा द्वारा 15,000/- रुपये का ईनाम घोषित किया गया था ।

ज्ञात है कि उक्त गौकशी की घटना में संलिप्त 03 अन्य अभियुक्त 1. चांद बाबू पुत्र साबिर निवासी ग्राम ढकिया चमन थाना डिडौली जनपद अमरोहा को दिनांक 21.02.2023 को थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड व अभियुक्तगण 2. शाहबुद्दीन पुत्र शकील निवासी ग्राम चौधरपुर थाना डिडौली जनपद अमरोहा व 3. छोटे पुत्र इस्तयाक निवासी ग्राम ढकिया चमन थाना डिडौली जनपद अमरोहा को दिनांक 21/22.02.2023 की रात्रि थाना डिडौली पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड घायल/गिरफ्तार किया गया था ।



***गिरफ्तार अभियुक्त*:-**

1. अमान पुत्र अमानत निवासी ग्राम ढकिया चमन थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।

***बरामदगी*:-**

1. अवैध असलहा अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर ।
2. संदिग्ध मो०सा० होन्डा साइज रजि०न० UP21 AL 6848 ।

***आपराधिक इतिहास अभियुक्त अमान*:-**

1. मु०अ०सं० 103/23 धारा 307 भादवि 3/25 आयुद्ध अधि० थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
2. मु०अ०सं० 73/23 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि० 11 पशु क्रुरता अधि० थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।
3. मु०अ०सं० 178/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
4. मु०अ०सं० 390/19 धारा 3/5A/8 सीएस एक्ट थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
5. मु०अ०सं० 99/18 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
6. मु०अ०सं० 98/18 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*:-**

1. प्रभारी निरीक्षक प्रवेज कुमार चौहान थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
2. उ०नि० कपिल कुमार थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
3. उ०नि० तेजेन्द्र बालियान थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
4. हे०का० 320 सोनू कुमार थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
5. का० 1226 मनदीप सिंह थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।

PRO CELL AMROHA